



- U)** जैसी महत्त्वकांक्षी योजनाएँ शहरी अवसंरचना, आवास तथा शासन को आधुनिक बनाने हेतु लक्ष्यित नीतित्त हस्तक्षेपों का उदाहरण हैं।
- मई 2025 तक, **स्मार्ट सटीज मशिन** के तहत 8,000 से अधिक परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं और अमृत तथा **अमृत 2.0** के तहत 14,000 से अधिक परियोजनाओं को स्वीकृतमिलि चुकी है।
 - इन पहलों का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों को केवल अवसंरचना विकास तक सीमति न रखकर, उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन के जीवन्त केंद्रों में परिवर्तित करना है, ताकि जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हो सके।
 - इसके अतिरिक्त, **सटारटअप इंडिया** और **‘वोकल फॉर लोकल’** जैसी योजनाएँ शहरों को उद्यमिता केंद्रों में बदल रही हैं, जो आत्मनिर्भरता, सतत विकास तथा जलवायु प्रतबिद्धताओं के साथ संतुलित वृद्धि को बढ़ावा देती हैं।
 - **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP)** भी एक महत्त्वपूर्ण पहलू है, जिसके तहत नविश का उद्देश्य सतत शहरी अवसंरचना का विकास करना है।
 - **प्रौद्योगिकी एकीकरण और स्मार्ट शहरी समाधान:** **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)**, **इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)** और **बगि डेटा एनालिटिक्स** जैसी उभरती प्रौद्योगिकियाँ शहरी प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव ला रही हैं, जिससे दक्षता, पारदर्शिता तथा स्थिरता में वृद्धि हो रही है।
 - **स्मार्ट सटीज मशिन (SCM)** के तहत सभी 100 शहरों ने **इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स (ICCC)** स्थापति किये हैं, जो शहरी प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिये AI और IoT जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं।
 - डिजिटल अवसंरचना, बुद्धिमिन् यातायात प्रणाली तथा स्मार्ट जल एवं अपशषि्ट प्रबंधन, तीव्र शहरी विकास की जटिलताओं से निपटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिया रहे हैं।
 - **ग्रामीण संकट और कृषि संकट:** ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले प्रवासन के पीछे मुख्य कारण कृषि संकट में नहिंति हैं।
 - जलवायु परिवर्तन, अनयिमति मानसून पैटर्न और प्रतबिद्ध भूमि जोत में कमी ने ग्रामीण आबादी की असुरक्षा को और गहरा कर दिया है।
 - देश में किसानों की औसत कृषि जोत वर्ष 2016-17 में 1.08 हेक्टेयर थी, जो घटकर वर्ष 2021-22 में मात्र 0.74 हेक्टेयर रह गई।
 - जैसे-जैसे कृषि उत्पादकता और अधिक अनश्चिति होती जा रही है, शहरी प्रवासन कई लोगों के लिये एक महत्त्वपूर्ण जीवन-रक्षण रणनीति के रूप में उभर रहा है, जो बेहतर आर्थिक अवसर तथा अधिक स्थिर आजीविका प्रदान करता है।



भारत की शहरी विकास पहलें



AMRUT

शहरी बुनियादी ढाँचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है



प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

किफायती आवास प्रदान करने का लक्ष्य



स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छता और स्वच्छता को बढ़ावा देता है



स्मार्ट सिटी मिशन

स्मार्ट समाधान के साथ शहरों को बढ़ाता है



पीएम स्वनिधि योजना

स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करता है



राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

शहरी गरीबों के लिये आजीविका के अवसर प्रदान करता है


भारत में शहरी विकास से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- वित्तीय बाधाएँ और नजी पूँजी का कम उपयोग: **शहरी स्थानीय निकायों** को सीमिति राजस्व स्वायत्तता, अकुशल कर संग्रह और राज्य एवं केंद्र सरकार के हस्तांतरण पर अत्यधिक निर्भरता के कारण वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इससे आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण की उनकी क्षमता बाधित होती है।
 - हालाँकि सरकारें शहरी बुनियादी ढाँचे के 72% का वित्तपोषण करती हैं, फिर भी नजी क्षेत्र की भागीदारी न्यूनतम है, जो वाणज्यिक वित्तपोषण को आकर्षित करने में संरचनात्मक चुनौतियों को उजागर करती है।
 - वशिव बैंक का अनुमान है कि भारत को अगले 15 वर्षों में शहरी बुनियादी ढाँचे और नगरपालिका सेवाओं में 840 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नविश की आवश्यकता होगी, जो औसतन लगभग 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है।
 - यह देश के तीव्र शहरीकरण और बुनियादी ढाँचे के विकास को समर्थन देने के लिये पर्याप्त वित्तपोषण आवश्यकताओं को रेखांकित करता है।
- बुनियादी ढाँचे की कमी और सेवा प्रदायगी का अभाव: भारत का शहरी बुनियादी ढाँचा जनसांख्यिकीय वृद्धि की तुलना में काफी पीछे है, जिसके परिणामस्वरूप आवास, पेयजल, स्वच्छता और ऊर्जा सेवाओं की गंभीर कमी देखी जा रही है।
 - भारत में वर्तमान में लगभग 10 मिलियन कफायती आवासों की कमी है, जो वर्ष 2030 तक तीन गुना होने की संभावना है। यह बढ़ती कमी न केवल भीड़भाड़ वाली झुग्गियों को जन्म देती है, बल्कि शहरी गेट्टो (बंद बस्तियों) का भी निर्माण करती है।
 - इसके अतिरिक्त, वशिव बैंक के अनुसार, वर्ष 2011-18 के बीच शहरी बुनियादी ढाँचे में नविश औसतन GDP का केवल 0.6% रहा, जो

आवश्यक 1.2% का आधा है। यह लगातार बनी रहने वाली वित्तीय कमी को दर्शाता है।

- वभिन्न पहलों के बावजूद, कोई भी भारतीय शहर **ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स** के शीर्ष 100 में स्थान नहीं पा सका और यहाँ तक कि भारत का शीर्ष शहर बेंगलुरु भी **ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स** में केवल 66.7 अंक ही प्राप्त कर पाया।

- **भीड़भाड़ और यातायात प्रबंधन की समस्याएँ:** शहरी नवासी (जैसे, बेंगलुरु और पुणे में) **प्रतिदिन औसतन 1.5 से 2 घंटे तक यातायात जाम** में बताते हैं। यह भीड़भाड़ न केवल प्रदूषण के स्तर को बढ़ाती है, बल्कि बहुमूल्य समय की बर्बादी कर उत्पादकता को भी घटाती है।
 - इसके अलावा, अधिकांश भारतीय शहरों में **व्यापक, कुशल और एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली** का अभाव है, जिसके कारण लोग नज्दी वाहनों पर अधिक निर्भर हो जाते हैं तथा यह स्थिति यातायात जाम को और गंभीर बना देती है।
 - उदाहरणस्वरूप, **पटना को 1,000 से अधिक बसों की आवश्यकता है**, लेकिन वर्ष 2024-25 में केवल 260 बसें ही पंजीकृत थीं, जो एक समग्र सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की कमी को उजागर करता है।
 - **एशियाई विकास बैंक** के अनुसार, भारत को शहरी परिवहन की अक्षमताओं, लॉजिस्टिक्स में देरी और कमज़ोर अवसंरचना के कारण प्रतिवर्ष लगभग **22 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक का नुकसान होता है।
- **पर्यावरणीय ह्रास और कमज़ोर शहरी अनुकूलन:** तेज़ी से हो रहे शहरीकरण के कारण **हरति आवरण में भारी कमी, आर्द्रभूमियों का वनाश और जलाशयों का प्रदूषण बढ़ गया है।**
 - निर्माण-प्रधान विकास प्रायः पारिस्थितिक पहलुओं की अनदेखी करता है, जिसके चलते **आकस्मिक बाढ़**, जलनिकासी वफिलता और **वायु गुणवत्ता** में गिरावट जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
 - इसके परिणामस्वरूप शहर पर्यावरणीय आघातों के प्रति और अधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं, फरि भी निर्माण वनियम **उच्च-ऊर्जा आधारित डिज़ाइन** को ही प्राथमिकता देते हैं।
 - **वर्ष 2023 की दिल्ली बाढ़ और वर्ष 2024 की बेंगलुरु बाढ़** इस बात के स्पष्ट उदाहरण हैं कि किस प्रकार अपर्याप्त शहरी अवसंरचना चरम मौसमी घटनाओं से निपटने में असमर्थ है।
 - साथ ही, दिल्ली और गुरुग्राम सहित **13 भारतीय शहरों को विश्व के शीर्ष 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में स्थान दिया गया।**
- **आर्थिक असमानताएँ और शहरी गरीबी:** भारत के शहरी क्षेत्रों में बढ़ती जीवन-यापन लागत और नमिन-आय वर्गों के लिये पर्याप्त रोज़गार सृजन की कमी के कारण आर्थिक असमानता तेज़ी से बढ़ रही है।
 - कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा, **लगभग 90%, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है**, जहाँ श्रमिकों को प्रायः सामाजिक सुरक्षा और स्थिर वेतन का लाभ नहीं मिलता।
 - महँगाई, विशेषकर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, ने शहरी परिवारों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिससे उनकी **उपलब्ध आय घट गई है** और क़र्य शक्ति कमज़ोर हो गई है।
 - इसके अतिरिक्त, CMIE के अनुसार **अप्रैल 2024 में शहरी बेरोज़गारी दर 8.1% तक पहुँच गई**, जिसने नगरवासियों पर आर्थिक बोझ को और बढ़ा दिया।
- **शहरी अपशष्टि प्रबंधन संकट:** **शहरी अपशष्टि प्रबंधन** प्रणाली बढ़ते ठोस अपशष्टि के उत्पादन से निपटने में संघर्ष कर रही है और अनुचित निपटान प्रथाएँ पर्यावरणीय खतरों को जन्म दे रही हैं।
 - **एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI)** की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय शहर प्रतिवर्ष लगभग **62 मिलियन टन नगरपालिका ठोस अपशष्टि उत्पन्न करते हैं।**
 - हालाँकि, इनमें से केवल लगभग **43 मिलियन टन ही एकत्र किया जाता है** और महज़ **12 मिलियन टन** का ही उपचार करके निपटान किया जाता है।
 - **दिल्ली का गाज़ीपुर स्थित लैंडफिल और अहमदाबाद का पीराना स्थित लैंडफिल** जैसे मेगा-लैंडफिल लगातार फैलते जा रहे हैं, जिससे जहरीली गैसें निकल रही हैं और जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहे हैं।
- **शहरी सुरक्षा से जुड़ी समस्याएँ:** चोरी, साइबर अपराध और लगे आधारित हिंसा सहित शहरी अपराध दर में वृद्धि से शहर के नवासियों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है।
 - इस प्रवृत्ति में योगदान देने वाले कारक हैं **अपर्याप्त पुलिस व्यवस्था, अपर्याप्त शहरी नियोजन, तथा कमज़ोर कानूनी प्रवर्तन**, जो सभी प्रभावी अपराध नियंत्रण तथा नागरिकों की सुरक्षा में बाधा डालते हैं।
 - **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (2023)** के आँकड़ों के अनुसार, दिल्ली में वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 14,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए।
- **नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव:** भारतीय शहरों में शहरी ताप द्वीप (UHI) प्रभाव में वृद्धि देखी गई है, जहाँ घनी आबादी वाले क्षेत्रों में तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है।
 - शहरी क्षेत्रों में बढ़ते तापमान के कारण **एयर कंडीशनिंग पर निर्भरता बढ़ जाती है**, जिससे विशेष रूप से गर्मियों के महीनों में बजिली की मांग तेज़ी से बढ़ती है। यह बजिली गर्डि पर अतिरिक्त दबाव डालता है और **कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि का कारण बनता है।**
 - **नगरीय ऊष्मा द्वीप (Urban Heat Islands)** विशेष रूप से संवेदनशील आबादी के लिये गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं, साथ ही ये हरति क्षेत्रों और जैव विविधता में कमी का कारण भी बनते हैं।
 - यह (नगरीय ऊष्मा द्वीप) **जल संकट को और गंभीर बनाता है, बाढ़ के खतरे को बढ़ाते हैं**, तथा बुनियादी ढाँचे के क्षरण को तेज़ करते हैं, जिससे अंततः शहरों की समग्र जीवन-स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।



भारत में सतत् एवं समावेशी शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय लागू किये जा सकते हैं?

- **राजकोषीय व किर्द्रीकरण और सतत् अवसंरचना वित्तपोषण:** बजटीय उत्तरदायित्व के ढाँचे के भीतर नगरपालिका राजस्व स्रोतों को व्यापक बनाकर, संपत्ति करों में सुधार करके, भूमि मूल्य अधिग्रहण तंत्र शुरू करके तथा गतिशील उपयोगकर्तता शुल्क लागू करके व्यापक राजकोषीय व किर्द्रीकरण के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को सशक्त बनाना।
 - पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) से जुड़े उपकरणों को शामिल करते हुए नगरपालिका बॉण्ड बाज़ारों (इंदौर नगर नगिम) के विकास को बढ़ावा देना, साथ ही राजकोषीय वविक, पारदर्शिता तथा प्रभावी सार्वजनिक-नजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये परिणाम-आधारित प्रदर्शन अनुदान की स्थापना करना।
 - इस दृष्टिकोण से लचीले बुनियादी ढाँचे में निवेश के लिये पूंजी उपलब्ध होगी, जिससे टिकाऊ शहरी विकास सुनिश्चित होगा।
- **एकीकृत शहरी विकास रणनीति:** भूमि उपयोग, परिवहन, आवास और पर्यावरण प्रबंधन को शामिल करते हुए व्यापक ज़म्मेदारियों के साथ महानगरीय विकास प्राधिकरणों की स्थापना करके खंडित शासन संरचनाओं को संशोधित करना।
 - 74वें संवधान संशोधन के अनुरूप सहायकता (Subsidiarity) और सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को बढ़ावा दिया जाए, ताकि सक्षम तथा जवाबदेह नेतृत्व सुनिश्चित किया जा सके जो ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों स्तरों पर समन्वय को प्रोत्साहित करे। इससे नौकरशाही बाधाओं को दूर कर नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुचारू बनाया जा सकेगा।
 - उत्तरदायी एवं पारदर्शी शहरी शासन सुनिश्चित करने के लिये जवाबदेही बढ़ाना तथा बहु-हितधारक सहयोग को बढ़ावा देना।
 - इसके अलावा, ओडिशा की ग्रामीण-शहरी परिवर्तन नीति, शहरी स्तर की बुनियादी संरचना और योजनागत सहायता प्रदान करके, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में सुचारू और स्थायी बदलाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
- **समावेशी शहरी पुनरुत्थान:** PMAY-Urban के कफायती आवास लक्ष्यों को स्मार्ट सिटी मिशन के डिजिटल शासन और सेवा वितरण प्लेटफार्मों के साथ संरेखित करके एकीकृत शहरी पुनरुत्थान को क्रियान्वित करना।
 - समग्र सलम उन्नयन को सुगम बनाया जाए, जिसमें बेहतर भौतिक अवसंरचना, स्वच्छता, आजीविका सहायता और डिजिटल समावेशन को एक साथ शामिल किया जाए।
 - यह दृष्टिकोण सामाजिक समानता को बढ़ावा देगा तथा सहभागी नियोजन और वास्तविक समय नगरानी प्रणालियों के माध्यम से हाशिए पर पड़े शहरी समुदायों को सशक्त बनाएगा, जिससे सतत् विकास और समावेशी वृद्धि सुनिश्चित होगी।
 - भारत, थाईलैंड की Baan Mankong परियोजना (2003) से महत्वपूर्ण सबक ले सकता है, जिसने सामुदायिक नेतृत्व वाले प्रयासों के माध्यम से सुरक्षा भूमि अधिकार, बेहतर आवास और अवसंरचना प्रदान करके सलमों का प्रभावी ढंग से उन्नयन किया।
- **डेटा-संचालित, अंतर-संचालनीय शहरी प्लेटफार्मों को सक्षम बनाना:** भारत को शहरी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) में निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिये ताकि वास्तविक समय में नगरानी संभव हो, सेवा वितरण में सुधार हो और प्रभावी शहरी योजना का समर्थन किया जा सके।
 - स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केन्द्र (ICCC) जैसे प्लेटफार्मों का वसितार किया जाना चाहिये तथा उन्हें शहरों में अंतर-संचालनीय बनाया जाना चाहिये, ताकि एकीकृत शहरी प्रबंधन प्रणाली बनाई जा सके।
 - संपत्ति अभिलेखों, उपयोगिता बलिगि प्रणालियों, गतिशीलता डेटा और GIS परतों को जोड़ने से शहरी दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, तथा निर्बाध डेटा विनिमय और नरिणय लेने में सुविधा होगी।
 - यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि डिजिटलीकरण से न केवल पारदर्शिता में सुधार होगा, बल्कि शहरी क्षेत्रों में शासन और परिचालन प्रभावशीलता भी मज़बूत होगी।
 - एस्टोनिया के डेटा-संचालित शासन ने पारदर्शिता को बढ़ाया है, नौकरशाही की अक्षमताओं को कम किया है, और नागरिकों के विश्वास के उच्च स्तर को बढ़ावा दिया है, जो भारत के शहरी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के लिये मूल्यवान सीख प्रदान करता है।
- **ठोस और ई-अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना:** पुनर्चक्रण दर को बढ़ाने और लैंडफिल पर निर्भरता को कम करने के लिये वार्ड स्तर पर वकिर्द्रीकृत अपशिष्ट पृथक्करण प्रणाली लागू की जानी चाहिये।
 - उन्नत प्रोद्योगकियाँ, जिनमें अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र (जैसे, दिल्ली में नरेला-बवाना संयंत्र) और सामग्री पुनर्प्राप्ति

सुवर्धिएँ शामिल हैं, अपशष्टि की बढ़ती मात्रा के प्रबंधन के लिये महत्वपूर्ण हैं।

- **ई-अपशष्टि** उत्पन्न होने की समस्या से निपटने के लिये **वसितारति उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) कानूनों** को सख्ती से लागू करना आवश्यक है, ताकि कंपनियों को बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के पुनर्चक्रण हेतु ज़िम्मेदार ठहराया जा सके।
 - **बंगलुरु की विकिर्दीकृत कम्पोसटिंग में सफलता एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करती है** जिसे अन्य शहरों में भी बड़े पैमाने पर अपनाया और दोहराया जा सकता है।
- **जलवायु लचीलापन के लिये शहरी नीली-हरति अवसंरचना को मुख्यधारा में लाना:** भारतीय शहरों को बाढ़ और **हीटवेव** जैसी आपदाओं से निपटने की क्षमता विकसित करने के लिये शहरी जल नकियों, आर्द्रभूमियों (Wetlands) और हरति गलियारों (Green Corridors) के पुनर्स्थापन और एकीकरण को अपनी मूल शहरी योजना में प्राथमिकता देनी चाहिये।
 - शहरी नियोजन में एक **व्यापक हरति मास्टर प्लान (Comprehensive Green Master Plan)** के भाग के रूप में शहरी वनों, जैव उद्यानों और वर्षा उद्यानों के लिये भूमि आवंटित की जानी चाहिये।
 - **अहमदाबाद और पुणे जैसे शहर अनुकरणीय मॉडल के रूप में कार्य करते हैं**, जहाँ शहरी झीलें और पार्कों के पुनरुद्धार से तापमान में प्रभावी रूप से कमी आई है तथा भूजल पुनर्भरण में वृद्धि हुई है।
 - इसके अतिरिक्त शहरी हरतिकरण (Urban Greening) और जलग्रहण क्षेत्र पुनर्स्थापन (Watershed Restoration) के प्रयासों को AMRUT 2.0 और **SBM-U 2.0** जैसी योजनाओं के साथ समन्वयित किया जाना चाहिये, ताकि समग्र और सतत् शहरी विकास सुनिश्चित किया जा सके।
 - भारत जलवायु-लचीले शहरी वातावरण विकसित करने हेतु **चीन के "स्पंज सिटी" मॉडल** से भी प्रेरणा ले सकता है, जो शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल प्रबंधन और प्राकृतिक जल संतुलन बनाए रखने के लिये महत्वपूर्ण सीख प्रदान करता है।
- **शहरी सुरक्षा को सुदृढ़ करना:** बढ़ती शहरी अपराध दर और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिये, शहरों को पुलिस दक्षता बढ़ानी होगी, शहरी नियोजन में सुधार करना होगा और कानूनी प्रवर्तन तंत्र को मज़बूत करना होगा।
 - यह लक्ष्य **स्मार्ट निगरानी प्रणाली (Smart Surveillance System)** लागू करके और सामुदायिक पुलिसिंग (Community Policing) को सुदृढ़ बनाकर प्राप्त किया जा सकता है, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नागरिकों के बीच विश्वास को बढ़ावा मिला।
 - उदाहरणतः **मुंबई ने सक्रिय पुलिसिंग पहलों को लागू किया है**, जो अपराध की रोकथाम को बढ़ाने के लिये वास्तविक समय के ऑकड़ों, निगरानी और विश्लेषण का लाभ उठाती है।
 - इसके अलावा **समुदाय-आधारित सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को शामिल करने** से स्थानीय समुदायों को अपराध रोकथाम में योगदान करने के लिये सशक्त बनाया जा सकता है।
- **सामुदायिक भागीदारी और सहभागी योजना को संस्थागत बनाना:** सतत् शहरों के निर्माण के लिये उन समुदायों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है जिनकी वे सेवा करते हैं।
 - **वार्ड समितियों, मोहल्ला सभाओं और नागरिक रिपोर्ट कार्ड** जैसे संस्थागत मंचों से शहरी नियोजन और नविसियों के जीवन अनुभवों के बीच की खाई को पाटने में मदद मिल सकती है।
 - **नगरपालिका बजट को सहभागी बनाया जाना चाहिये**, जिससे नागरिकों को स्थानीय अवसंरचना की प्राथमिकताओं और संसाधन आवंटन में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर मिल सके।
 - **पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली**, सामाजिक लेखा परीक्षा और क्षेत्र सभा जैसे उपकरणों को राज्य नगरपालिका कानूनों में अनिवार्य किया जाना चाहिये।
 - भारत, **ब्राज़ील के सहभागी बजट मॉडल की तरह समान ढाँचे को अपना सकता है**, जहाँ नागरिक स्थानीय परियोजनाओं के लिये बजट आवंटन को सीधे प्रभावित करते हैं।
- **सतत् शहरी नियोजन:** भारत में सतत् शहरी नियोजन के लिये एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने हेतु पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक कारकों को एकीकृत करता है।
 - शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर **नीतिआयोग की 2021 की रिपोर्ट** में शहरी नियोजन को मज़बूत करने और शासन के विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण में सुधार के लिए एक वैधानिक निकाय के रूप में **राष्ट्रीय नगर एवं ग्राम योजनाकार परिषद की स्थापना की सफ़ारिश** की गई है।
 - इससे शहरी विकास के लिये **अधिक समन्वय और व्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा।**
 - इसके अतिरिक्त **मास्टर प्लान दिल्ली 2041** जैसी पहल सतत् शहरीकरण प्राप्त करने के लिये मॉडल बनाने की दृष्टि में एक सकारात्मक कदम का प्रतिनिधित्व करती है।
 - **इसके अलावा अधिक उपग्रह कसबों का विकास करने से भारत के अत्यधिक संकेंद्रित शहरीकरण के दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है।**

नक्षिर्कष

भारत का शहरीकरण, जहाँ उल्लेखनीय विकास क्षमता प्रदान करता है, वहीं यह सुनिश्चित करने के लिये एक **दूरदर्शी दृष्टिकोण** की भी माँग करता है कि शहर सतत्, समावेशी और अनुकूल केंद्रों के रूप में विकसित हों। शहरी चुनौतियों का समाधान **सतत् विकास लक्ष्य 11 (सतत् शहर और समुदाय)** के सिद्धांतों को एकीकृत करने में निहित है ताकि ऐसे शहरों को बढ़ावा दिया जा सके जो न केवल आर्थिक रूप से जीवन्त हों, बल्कि सामाजिक रूप से समतावादी तथा पर्यावरणीय रूप से ज़िम्मेदार भी हों।

प्रश्न. भारत में शहरी विकास की बहुआयामी चुनौतियों का समाधान करने के लिये आवश्यक प्रमुख उपायों पर चर्चा कीजिये, जिसमें शासन, बुनियादी ढाँचे और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????

प्रश्न. भारत में ठोस अपशष्टि प्रबंधन नयिम, 2016 के अनुसार, नमिनलखिति में से कौन-सा एक कथन सही है? (2019)

- (a) अपशष्टि उत्पादक को पाँच कोटयों में अपशष्टि अलग-अलग करने होंगे ।
- (b) ये नयिम केवल अधसूचति नगरीय स्थानीय नकियों, अधसूचति नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर ही लागू होंगे ।
- (c) इन नयिमों में अपशष्टि भराव स्थलों तथा अपशष्टि प्रसंस्करण सुवधियों के लयि सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधति हैं ।
- (d) अपशष्टि उत्पादक के लयि यह आज्ञापक होगा कि किसी एक ज़लि में उत्पादति अपशष्टि, किसी अन्य ज़लि में न ले जाया जाए ।

उत्तर: (c)

??????

प्रश्न. कई वर्षों से उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारम्बारता बढ़ रही है । शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखमि कम करने की तैयारियों की क्रियावधिपर प्रकाश डालयि । (2016)

प्रश्न. क्या कमज़ोर और पछिड़े समुदायों के लयि आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षति करने के द्वारा, उनकी उन्नतिके लयि सरकारी योजनाएँ, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनको बहिष्कृत कर देती हैं? (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/towards-sustainable-urbanization-in-india>

